



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

1 आश्विन, 1941 (श०)

संख्या- 743 राँची, सोमवार,

23 सितम्बर, 2019 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----  
अधिसूचना

11 सितम्बर, 2019

**संख्या-14/जा०नि०-03-05/2019 का०7319--** कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के विभाग के पत्रांक-12817, दिनांक-17.11.2012 द्वारा झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) की समेकित सूची परिचारित की गई है, जिसमें पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के क्रमांक-29 पर सोनार (सुवर्ण वनिक) अंकित है।

संकल्प सं०-7088, दिनांक-19.09.2018 द्वारा अष्टलोहि कर्मकार को राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 2) के क्रमांक 29 पर “सोनार (सुवर्ण वनिक) के साथ समावेशित किया गया है तथा संकल्प सं०-4857, दिनांक-20.06.2019 द्वारा “स्वर्णकार” को पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के क्रमांक-29 पर सोनार (सुवर्ण वनिक), अष्टलोहि कर्मकार के साथ समावेशित किया गया है।

पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड, राँची ने अपने पत्रांक-जाति-132/2018-317/पि०, दिनांक-13.08.2019 द्वारा झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 2) के क्रमांक 29 पर दर्ज "स्वर्णकार" का अंग्रेजी हिज्जे "Swarnkar/Swarnakar" अंकित किया जाना प्रतिवेदित किया है। अतः पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-2) के क्रमांक-29 में दर्ज स्वर्णकार जाति का अंग्रेजी रूप "Swarnkar/Swarnakar" के रूप में स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अरूण कुमार सिन्हा,**  
सरकार के अवर सचिव।

-----